



SBI PO 2023

MATHS



MOST EXPECTED PAPER - 12

तैयारी करने का सही समय

LIVE

11:00 AM





Question 11- Ajay appears in an examination where his marks in Hindi is 20 marks more than what he got in Maths . Find his marks in Hindi

① $H - M = 20$

$$M+E = 71.5 \times 2$$

$$M+E = 143$$

$$M:E = (5:8) \rightarrow 13$$

$$13 = 143$$

$$\begin{aligned} M &= 11 \times 5 \\ &= 55 \end{aligned}$$

Statement I – Average marks of Maths and English is 71.5. The ratio of marks of Practical and Theory in Maths is 6 : 5 and in English, it is 15 : 7

Statement II – Ratio of marks obtained in the theory exam of Maths and English is 1 : 2. The ratio of marks of Maths and English is 5 : 8

प्रश्न 11- अजय एक परीक्षा में उपस्थित होता है जहाँ हिंदी में उसके अंक गणित में प्राप्त अंकों से 20 अंक अधिक हैं। हिंदी में उसके अंक ज्ञात कीजिये

कथन I – गणित और अंग्रेजी के औसत अंक 71.5 हैं। गणित में प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों का अनुपात 6 : 5 है और अंग्रेजी में, यह 15 : 7 है।

कथन II – गणित और अंग्रेजी की थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुपात 1 : 2 है। गणित और अंग्रेजी के अंकों का अनुपात 5 : 8 है।



- A-. Either I or II is sufficient
- B- Statement II alone is sufficient
- C- .Neither of the statement is sufficient
- D-.Both I and II together is sufficient
- E- Statement I alone is sufficient



Question 13- There are 6 consecutive odd numbers. In which product of first and second number if 483. Find the average of middle two terms.

प्रश्न 13- 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल में यदि 483 है?

मध्य दो पदों का औसत ज्ञात कीजिए।

Odd
↑

$$x, x+2, \text{ (} x+4, x+6 \text{) } x+8, x+10$$

$$x(x+2) = 483$$

$$x^2 + 2x - 483 = 0$$

$$x \in (-23, +21)$$

$$x \neq -23$$

$$x = 21$$

$$\text{Average} = \frac{(x+4) + (x+6)}{2}$$

$$= \frac{25+27}{2} = \frac{52}{2} = 26$$


A- 26

B- 25

C- 33

D- 24

5- none of these



Question 1- The average annual income (in Rs.) of certain workers is A and that of other workers is B . The number of A workers is 9 times that of other workers. Then the average monthly income (in Rs.) of all the workers is :

प्रश्न 1- कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय (रुपये में) A है और अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय B है। A श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 9 गुना है। तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय (रुपये में) क्या है?

$$\left| \begin{array}{l} \frac{B-x}{x-A} = \frac{9}{1} \\ 9x - 9A = B - x \\ 10x = 9A + B \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} x = \frac{9A + B}{10} \\ \text{30} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} 100 + 300 \\ 2 \end{array} \right|$$

<https://t.me/mathbytarunsirmep1>

- A- $(9A+B)/10$
 B- $(9A-B)/10$
 C- $(9A+B)/9$
 D- $(9A+B)/7$
 E- None of these



$$P \rightarrow (+ | 0, -2)$$
$$Q \rightarrow (- | 1, -7)$$

$$\begin{array}{c} \cancel{P} \\ \cancel{Q} \end{array}$$

Question 4- $p^2 - 8p - 20 = 0$
 $q^2 + 18q + 77 = 0$

- A- $p > q$
B- $p < q$
C- $p \geq q$
D- $p \leq q$
E- $p = q$ or relation cant be established/
संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

- A- $p > q$
B- $p < q$
C- $p \geq q$
D- $p \leq q$
E- $p = q$ or relation cant be established/
संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।



$$\textcircled{1} P \rightarrow \left(+\frac{5\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$P \rightarrow \left(+2.5\sqrt{3}, -\sqrt{3} \right)$$

$$L \rightarrow \left(+\frac{15\sqrt{3}}{8}, \frac{4}{8}\sqrt{3} \right)$$

$$Q \rightarrow \left(+2.5\sqrt{3}, 1.3\sqrt{3} \right)$$

Question 5- $2p^2 - 3\sqrt{3}p - 15 = 0$

$$6q^2 - 23\sqrt{3}q + 60 = 0$$

~~Question 5- $2p^2 - 3\sqrt{3}p - 15 = 0$~~

~~$\frac{50}{3}$~~ ~~10~~ ~~5~~

~~$6q^2 - 23\sqrt{3}q + 60 = 0$~~

~~2~~

- A- $p > q$
- B- $p < q$
- C- $p \geq q$
- D- $p \leq q$
- E- $p = q$ or relation cant be established/
संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।



30

Question 6-

Quantity I- A person sells an article at 40% discount then there is a loss of 20%. The marked price is what percent more than the cost price.

Quantity 2- After allowing a discount of 20% a person gains 25%.
The marked price is what percent more than the cost price.

प्रश्न 6- Quantity I- एक व्यक्ति एक वस्तु को 30% छूट पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?

Quantity II- 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?



$$40\% = \frac{2}{5} \theta \quad | 20\% = \frac{1}{5} \theta$$

I CP SP MP

$$3x4 \quad 5x4$$

$$5x3 \quad 4x3$$

$$15 : 12 : 20$$

$$\boxed{\text{Diff} = 5}$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{8}{15} \times 100 \\ QI &= 33.33\% \end{aligned}$$

A. Quantity I > Quantity II

B. ~~Quantity I < Quantity II~~

C. Quantity I \geq Quantity II

D. Quantity I \leq Quantity II

E. Quantity I = Quantity II or relation cant be established/

संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

$$\begin{array}{c|c|c} \text{CP} & \text{SP} & \text{MP} \\ 4x4 & 5x4 & 5x5 \\ \hline 16 & 20 & 25 \end{array}$$

$$\begin{aligned} QII &= \frac{9 \times 25}{16 \times 4} \\ &= \frac{225}{64} = 56.25\% \end{aligned}$$



~~$20 + 20 + \frac{20 \times 20}{100}$~~ Question 7- The compound interest on a sum of Rs 40000 at 20% per annum for 3 years is what percent of simple interest on a sum of ~~Rs 50000 for 5 years at 12%~~ per annum.

~~$y = 20\%$~~ प्रश्न 4- 40000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ~~12%~~ प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 50000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत है?

$$\% = \frac{12(8 \% \text{ of } 40000)}{6(6 \% \text{ of } 50000)} \times 100$$

$$= \frac{128 \times 4^2}{6 \times 5} = \frac{1456}{18} = 97.06$$

30

- A. 98%
- B. 109.09%
- C. 115%
- D. ~~97.06%~~
- E. None of these



Question 8- 85% of 2400 + 88% of 15625 - 20% of 1200 + 37.5% of 1512

प्रश्न 8- 2400 का 85% + 15625 का 88% - 1200 का 20% + 1512 का 37.5%

$$= \frac{17}{20} \times \cancel{2400}^{120} + \frac{22}{25} \times \cancel{15625}^{625} - \cancel{240} + \frac{3}{8} \times \cancel{1512}^{189}$$

$$= 2040 + 13750 - 240 + 567 \rightarrow 327$$

$$= 15790 + 327$$

$$= 16117$$

30

- A. 15117
- B. 21167
- C. 22117
- D. 16117
- E. None of these



- A. $1\frac{19}{81}$
- B. $1\frac{19}{82}$
- C. $1\frac{17}{82}$
- D. $1\frac{13}{82}$
- E. None of these

Question 9- A person bought some apples at the rate of 5 per rupee and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the types and sold at the rate of 9 for 2 rupees. In this business he suffered a loss of Rs. 3. Find his profit or loss percentage?

प्रश्न 9- एक व्यक्ति ने कुछ सेब को 5 रुपये प्रति रुपये की दर से और इतनी ही संख्या में 4 रुपये प्रति रुपये की दर से खरीदा। वह दोनों प्रकार को मिलाता है और 9 की दर से 2 रुपये में बेचता है। इस व्यवसाय में उन्हें 3 रुपये का नुकसान हुआ। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

Home work

30



<https://t.me/mathbytarunsirmep1>



- A- 23/119
- B- 24/119
- C- 11/119
- D- 17/121
- E- none of these

Question 10- A bag contains 35 balls of three different colors viz. blue, yellow and green. The ratio of blue balls to yellow balls is 3 : 2, respectively and probability of choosing a green ball is $3/7$. If two balls are picked from the bag, then what is the probability that one ball is yellow and one ball is green?

एक बैग में तीन अलग-अलग रंगों नीले, पीले और हरे रंग की 35 गेंदें हैं। नीली गेंदों और पीली गेंदों का अनुपात क्रमशः 3: 2 है और हरी गेंद चुनने की संभावना $3/7$ है। यदि बैग से दो गेंदों को चुना जाता है, तो एक गेंद के पीले और एक गेंद के हरे रंग की होने की प्रायिकता क्या है?

30



$$\textcircled{1} \quad B : Y = [3 : 2] \rightarrow 5 = 2^0 \\ \left| \begin{array}{l} B = 12 \\ Y = 8 \end{array} \right.$$

$$\frac{X}{35} = \frac{3}{7}$$

$$X = 15 \text{ (Green)}$$

$$\text{Remaining} = 35 - 15 \\ = 20$$

$$P(E) = \frac{8 \times 15}{35 \times 34} \\ = \frac{8 \times 15 \times 2 \times 1}{35 \times 34 \times 17}$$

$$= \frac{24}{119}$$



Question 11- Three identical dice are thrown simultaneously, what is the probability that the product of all three outcomes on the three dices will be even?

प्रश्न 11- तीन समान पांसे को एक साथ फेंक दिया जाता है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि तीनों पांसे पर सभी तीन परिणामों का गुणनफल सम होगा?

① $P(E) \text{ for odd} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

$$\begin{aligned}P(E) \text{ for even} &= 1 - \frac{1}{8} \\&= \frac{7}{8}\end{aligned}$$

30

- A- 1/8
- B- 3/8
- C- 4/7
- D- 7/8
- E- none



<https://t.me/mathbytarunsirmep1>

<https://t.me/mathbytarunsirmep>